



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 1982/अग्रहायण 4, 1904

No. 355] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 1982/AGRAHAYAN 4, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1982

सां०कां० 720(अ). --केन्द्रीय सरकार, बीनी उपकर अधिनियम,
1982 (1982 का 3) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् --

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम
बीनी उपकर नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ -- इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित
न हो--

(क) "लेखा अधिकारी" से, यथास्थिति, मुख्य लेखा नियंत्रक,
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और निमा-शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली या उनके
नीचे कार्य करने वाले और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टरों में
समय के अनुसार और लेखा अधिकारी अभिप्रेत है।

(ख) "अधिनियम" से, बीनी उपकर अधिनियम 1982 (1982
का 3) अभिप्रेत है।

(ग) "केन्द्रीय सरकार" से खाद्य विभाग, भारत सरकार, नई
दिल्ली अभिप्रेत है।

(घ) "वित्त वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और आगामी
31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

(ङ) "प्रारूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है।

(च) "बीनी वर्ष" से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाला और
आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत
है।

(छ) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित
नहीं हैं किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है,
अन्य वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3 लेखा-रीति -- उपकर के आगम, मुख्य शीर्ष "038"--संघ उत्पाद
शुल्क के अर्जित उद्बुद्ध शीर्ष "घ--वस्तुओं पर उपकर" के अर्जित
गोण शीर्ष "बीनी पर उपकर" के अर्जित भारत की मंचित निधि में
जमा किए जाएंगे।

4 रिपोर्ट और विवरणियाँ आदि -- (1) बीनी कारखाने का प्रत्येक
अधिमोती केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित सूचना देगा:

(क) जून, 1982 से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक मास में उस मास
के जिससे वह सूचना संबंधित है सातवें दिन तक प्रारूप 1 में

सूचना देगा। जून, 1982 और आगे के मासों के लिए उस मास के अन्त तक जिसके दौरान ये नियम प्रकाशित किए जाने हैं, विवरणियाँ प्रकाशन की तारीख के पश्चात् मास के सातवें दिन तक भेज दी जाएंगी;

(ख) चीनी वर्ष 1981-82 के लिए प्ररूप 2 में उस मास के, जिसमें भारतीय चीनी मानक श्रेणियों के अनुरूप सम्पूर्ण निर्मुक्त चीनी, जो उस चीनी वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में उत्पादित की गई है, प्रेषित/परिवर्त कर दी जाती है, अगले मास के सातवें दिन तक सूचना देगा; और

(ग) वर्ष 1981-82 के पश्चात्पूर्ति प्ररूप चीनी वर्ष के लिए प्ररूप 3 में, उस मास के, जिसमें भारतीय चीनी मानक श्रेणियों के अनुरूप सम्पूर्ण निर्मुक्त चीनी, जो उस चीनी वर्ष

के दौरान उत्पादित की गई है, प्रेषित/परिवर्त कर दी जाती है, अगले मास के सातवें दिन तक सूचना देगा।

(2) प्रत्येक अधिभोगी, केन्द्रीय सरकार को, अधिनियम के प्रयोजनार्थ समय-समय पर सरकार द्वारा यथाप्रयोजित सांख्यिकीय और अन्य सूचना देगा।

5. लेखाओं का रखा जाना :—लेखा अधिकारी, उपकर के लेखाओं को पृथक् उस रीति में रखेगा जिसमें वे चीनी पर उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क के लिए रखे जाते हैं।

6. हिसाब देना :—लेखा-अधिकारी, केन्द्रीय सरकार को पूर्ववर्ती मास के अन्त में यथाप्रतिप्राप्त सूचना, प्ररूप 4 में अगले मास की पञ्चवीस तारीख तक भेज देगा।

प्ररूप 1

[नियम 4(1)(क) देखें]

प्रेषित/परिवर्त चीनी तथा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की गई उपकर की रकम के व्यौरे।

(प्रत्येक चीनी वर्ष के लिए पृथक् विवरण दी जाएगी)

..... 19..... मास के लिए विवरण

1. चीनी कारखाने का नाम
2. चीनी वर्ष
3. मास के दौरान प्रेषित/परिवर्त चीनी की मात्रा (किबंटलों में)
4. मास के दौरान प्रेषित/परिवर्त मात्रा पर रु० प्रति किबंटल की दर से सरकारी खाते में जमा की गई उपकर की रकम (रुपयों में)
5. मद्य 2 के सामने वर्णित वर्ष में प्रेषित/परिवर्त (किबंटलों में) चीनी की मात्रा का आनुक्रमिक योग।
6. मद्य 2 के सामने वर्णित वर्ष में सरकारी खाते में जमा की गई चीनी पर उपकर की रकम का आनुक्रमिक योग (रुपयों में)

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(अधिभोगी)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मद्य सं० 3 और 4 के सामने दी गई सूचना सत्यापित की गई है और सही पाई गई है।

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

प्ररूप 2

[नियम 4(1)(ख) देखें]

चीनी वर्ष 1981-82 तथा उससे पूर्व के लिए विवरणी

1. चीनी कारखाने का नाम
2. 31 मार्च, 1982 के अन्त में अग्रप्रेषित/अपरिषत्त रह जाने वाली चीनी की मात्रा (प्रत्येक चीनी वर्ष के लिए पृथक्) (क्विंटलों में)
3. 1 जून, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक उत्पादित चीनी की मात्रा
4. मव 2 और 3 का योग
5. निर्मुक्त चीनी की मात्रा (क्विंटलों में)
6. प्रेषित/परिषत्त चीनी की मात्रा (मव 5 में वर्णित में से) (क्विंटलों में)
7. 5 और 6 के बीच अन्तर के लिए कारण * (जैसे कि क्षतिग्रस्त चीनी, प्रसंस्करण में चीनी आदि)
8. सरकारी छाते में इ० प्रति क्विंटल चीनी की दर से जमा की उपकर की रकम (रुपयों में)

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(अभिधोगी)

[*टिप्पण :--ठीक चीनी (अर्थात् भारतीय चीनी मानक श्रेणी के अनुरूप) प्रेषित करने के पश्चात्, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्षतिग्रस्त या भारतीय चीनी मानक श्रेणी से निम्न श्रेणी की चीनी अभी स्टॉक में है, सूचना प्ररूप 2 में भेजी जानी अपेक्षित होगी।]

प्ररूप 3

[नियम 4(1)(ग) देखें]

....., चीनी वर्ष के लिए विवरणी

1. चीनी कारखाने का नाम
2. उत्पादित चीनी की मात्रा (क्विंटलों में)
3. निर्मुक्त चीनी की मात्रा (क्विंटलों में)
4. प्रेषित/परिषत्त चीनी की मात्रा (क्विंटलों में)
5. 3 और 4 में अन्तर के लिए कारण * (जैसे क्षतिग्रस्त चीनी, प्रसंस्करण में चीनी आदि)
6. सरकारी छाते में इ० प्रति क्विंटल चीनी की दर से जमा की गई उपकर की रकम (रुपयों में)

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

(अभिधोगी)

[*टिप्पण :--ठीक चीनी (अर्थात् भारतीय चीनी मानक श्रेणी के अनुरूप) प्रेषित करने के पश्चात्, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्षतिग्रस्त या भारतीय चीनी मानक श्रेणी से निम्न श्रेणी की चीनी अभी स्टॉक में है, सूचना प्ररूप 3 में भेजी जानी अपेक्षित होगी।]

प्ररूप 4

(नियम 6)

..... 19..... के मास के लिए और उस तक चीनी पर उपकर का प्रोफार्मा लेखा

पूर्व मास का आरंभ होप	मास के दौरान गणना और लेखा किया गया उपकर	योग (स्लम 1 + 2)	मास के दौरान निर्धारितियां को किया गया, उपकर का प्रतिदाय/की गई छूट, यदि कोई हो	अन्त अभिलेख (स्लम 3-4)
1	2	3	4	5
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०

[संख्या 14-14/82-शुगर हेड-1]

एन० आर० बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 1982

G.S.R. 720 (II).—In exercise of the powers conferred by section 5 and section 6 of the Sugar Cess Act, 1982 (3 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sugar Cess Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- 'Accounts Officer' means the Chief Controller of Accounts, Central Board of Excise and Customs, New Delhi or the Pay and Accounts Officers functioning under him and attached to the Collectorate of Central Excise, as the case may be;
- 'Act' means the Sugar Cess Act, 1982 (3 of 1982);
- 'Central Government' means the Department of Food, Government of India, New Delhi;
- 'Financial year' means the year commencing from the 1st April and ending on the 31st March next;
- 'Form' means a Form annexed to these rules;
- 'Sugar year' means the year commencing on 1st October and ending on 30th September next;
- The words and expressions used and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Manner of accounting.**—The proceeds of the Cess shall be credited to the Consolidated Fund of India under the Minor Head "Cess on Sugar" subordinate to sub-major Head "D-Cess on Commodities" under Major Head "038"—Union Excise Duties.

4. **Reports and returns, etc.**—(1) Every occupier of a sugar factory shall furnish to the Central Government information—

- in Form I every month commencing from the month of June, 1982 by the seventh day of the month following the month to which the information pertains. Returns for the month of June, 1982 and onwards till the end of the month during which these rules are published shall be furnished by the seventh of the month following the date of publication;
- in Form II for the sugar year 1981-82, by the seventh of the month following the month in which the entire released sugar, conforming to Indian Sugar Standard grades, produced in that sugar year and earlier, stand despatched/delivered; and
- in Form III for each sugar year subsequent to 1981-82; by the seventh of the month following the month in which the entire released sugar, conforming to Indian Sugar Standard grades, produced during that sugar year stands despatched/delivered.

(2) Every occupier shall furnish such statistical and other information to the Central Government as may be required by such Government from time to time for the purpose of the Act.

5. **Maintenance of Accounts.**—The Accounts Officer shall maintain separately the accounts of the cess in the manner these are maintained for the duty of excise levied on sugar.

6. **Rendering of Accounts.**—The Accounts Officer shall furnish to the Central Government by the twentyfifth of the following month information in Form IV as obtained at the end of the preceding month.

FORM I

[Rule 4 (1)(a)]

Details of sugar despatched/delivered and amount of cess deposited in Central Government account

(Separate return to be furnished for each sugar year)

Return for the Month of.....19

1. Name of the sugar factory
2. Sugar year
3. Quantity of sugar despatched/delivered during the month
(in quintals)
4. Amount of cess deposited in Government account at the rate of
Rs.....per quintal on the quantity despatched/delivered during
the month (in Rupees)
5. Progressive total of the quantity of sugar of the year mentioned
against item 2 despatched/delivered (in quintals)
6. Progressive total of the amount of cess on the sugar of the year
mentioned against item 2 deposited in Government account (in
Rupees)

Date :

Signature :

Name :

Designation :

(Occupier)

Verification by the Central Excise Authority Concerned

It is certified that the information furnished against items No. 3 and 4 above has been verified and found to be correct.

Date :

Signature :

Name :

Designation

FORM II

[Rule 4 (1) (b)]

Return for the Sugar year 1981-82 and earlier

1. Name of the sugar factory
2. Quantity (separately for each sugar year) of sugar remaining
undespatched/undelivered as at the close of the 31st May, 1982 (in
quintals)
3. Quantity of sugar produced from 1st June 1982 to 30th September
1982
4. Total of items 2 and 3
5. Quantity of sugar released (in quintals)
6. Quantity (out of that mentioned at item 5) of sugar despatched/
delivered (in quintals)
7. *Reason(s) for difference between 5 and 6 (like damaged sugar,
sugar in process etc).
8. Amount of cess deposited into the Government account at the rate
of Rs.... per quintal of sugar (in Rupees)

Date :

Signature :

Name :

Designation :

(Occupier)

[*Note :—After despatching the sound sugar, (viz. conforming to I.S.S. grade), information in form II will be required to be sent irrespective of the fact whether some damaged or Below—I.S.S. grade sugar may still be in stock.]

FORM III

[Rule 4(1)(c)]

Return for the Sugar Year

1. Name of the sugar factory
2. Quantity of sugar produced (in quintals)
3. Quantity of sugar released (in quintals)
4. Quantity of sugar despatched/delivered (in quintals)
5. *Reasons for difference between 3 and 4 (like damaged sugar, sugar in process etc.)
6. Amount of cess deposited into the Government account at the rate of Rs. per quintal of sugar (in Rupees)

Date :

Signature :

Name :

Designation :

(Occupier)

[*Note :—After despatching the sound sugar, (viz. conforming to I.S.S. grade), information in Form III will be required to be sent irrespective of the fact whether some damaged or Below—I.S.S. grade sugar may still be in stock.]

FORM IV

[Rule 6]

Proforma account of Cess on Sugar for and upto the month of19

Opening balance from previous month	Cess collected and accounted for during the month	Total (Cols. 1 + 2)	Refund/Exemption, if any, of Cess made to assesseees during the month	Closing balance (Col. 3—4)
1	2	3	4	5
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

[No. 14-14/82-Sugar Desk I]

N. R. BANERJI, Jt. Secy.